



1-State-owned Oil and Natural Gas Corp (ONGC) has begun gas production from its most promising block in the Krishna Godavari basin in the Bay of Bengal.

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने बंगाल की खाड़ी स्थित सबसे महत्वपूर्ण कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक से गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है।

2-Aviation Minister Mr. Hardeep Singh Puri honored GoAir with the prestigious 'Swachh Bharat Award' a trophy and a certificate at the International Exhibition and Conference, 'Wings India 2020' in Hyderabad.

विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, 'विंग्स इंडिया 2020' में गोएयर को प्रतिष्ठित 'स्वच्छ भारत पुरस्कार' ट्रॉफी और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया।

3-The first Light Combat Aircraft Tejas in Final Operational Clearance-standard (SP-21) took to the skies for its maiden flight.

पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अंतिम संचालन मंजूरी-मानक (एसपी- 21) के तहत पहली उड़ान भरी।

4-Former Himachal Pradesh assembly deputy speaker Rikhi Ram Kaundal passed away. He was 70.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रिखी राम कौंडल का निधन हो गया। वह 70 साल के थे।

5-The Andhra Pradesh government appointed former CMD of Air India Ashwani Lohani as the Chairman of the AP Tourism Development Corporation

आंध्र प्रदेश सरकार ने एयर इंडिया के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अश्विनी लोहानी को राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है।

6-Maintaining that women and men officers should be treated equally, the Supreme Court cleared permanent commission for women in the Navy.

नौसेना में पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किए जाने की बात पर जोर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बल में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी।

7-Manish Dugar has been appointed as the Chief Financial Officer of Mphasis.

मनीष दुगर को एमफैसिस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

8-Moody's Investors Service has lowered its India GDP growth forecast to 5.3 percent in 2020 due to coronavirus' impact on the economy.

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए 2020 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर मंगलवार को 5.3 प्रतिशत कर दिया।

9-Iraqi President Barham Salih appointed Adnan al-Zurfi as the country's new prime minister-designate.

इराकी राष्ट्रपति बरहम सलीह ने अदनान अल-ज़र्फी को देश का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया।

